

# ऐसे उठाएं ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा

**3A**

ज की भाग दौड़ की जिंदगी में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो काम और व्यक्तिगत जिंदगी के बीच बेहतर तालमेल बिठाते हो। आम तौर पर यही होता है कि हर प्रोफेशनल व्यक्ति अपने काम में इतना मशरूफ होता है कि उसे अपने परिवार या दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसे में एक लंबा सप्ताहांत किसे पसंद नहीं आएगा। अच्छी बात यह है कि अगले तीन महीनों के दौरान आपको लंबे सप्ताहांत यानी वीकेंड के कई मौके मिलेंगे। बस आप तैयारी कीजिए कुछ स्कून भरे पल अपने परिवार व दोस्तों के साथ गुजारने के लिए।

थोड़ी सी तैयारी से आप एक अक्टूबर से चार अक्टूबर के बीच, 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच, 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच और 23 नवंबर से 27 नवंबर के बीच लंबी छुट्टियों पर जा सकते हैं। इन चारों सप्ताहांत में आपको बस एक छुट्टी लेनी पड़ेगी। बाकी शनिवार, रविवार और कोई एक अधिकारिक छुट्टी है। इस समय कई वजहों से भी छुट्टियों के लिए यह एक बहुत ही अच्छा समय है। एक तो मंदी की वजह से होटलों के किराये सस्ते हैं और दूसरा हवाई किराये भी बहुत ही कम हो चल है। इन छुट्टियों में आप देश के अलावा विदेश मसलन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का दौरा भी कर सकते हैं।

छुट्टियां लंबी हो या बड़ी वह होनी यादगार चाहिए। यह तभी होगी जब यह खुशनुमा व सुरक्षित माहौल में हो। यात्रा की तारीख तय करने से लेकर होटलों व एयरलाइंस की बुकिंग करने तक में सावधानी बरतनी पड़ती है। इसके अलावा आपको विदेशी मुद्रा का इंतजाम करना



**सुरेश सुगथन**  
प्रमुख (स्वास्थ्य व यात्रा बीमा)  
बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेस



हमारे पास ट्रैवल इंश्योरेस से संबंधित जो डाटा उपलब्ध है, उसके मुताबिक भारतीय पर्यटकों को आम तौर पर विदेशी जमीन पर दुर्घटना व ट्रैवल से जुड़ी आपातकालीन सेवा, पार्सपोर्ट या सामान की चोरी जैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि ट्रैवल इंश्योरेस से उक्त सभी हानियों की क्षतिपूर्ति आप कर सकते हैं। अब आप विदेशों में होने वाली दुर्घटना या बीमारी का उदाहरण ले। विदेशी जमीन पर दुर्घटना होने पर न सिर्फ अनाप शनाप खर्चे होते हैं, बल्कि यह मानसिक हानि भी बहुत ज्यादा देता है। वैसे भी आम जनता बहुत ही कम विदेशी मुद्रा लेकर विदेश दौरे पर जाती है। लेकिन एक ट्रैवल इंश्योरेस हो तो आप इन सभी मुसीबतों से होने वाली आर्थिक हानि से साफ बच जाते हैं। कई बार एयरलाइनें फ्लाइट रद कर देती हैं, या प्राकृतिक वजहों से काफी परेशानी झेलनी पड़ती है मसलन एयरपोर्ट का बंद होना, आदि। इन सभी से होने वाले आर्थिक बोझ भी बीमा से कम किया जा सकता है। कई बार लगेज एयरलाइंस की गलती की वजह से किसी दूसरे देश में चला जाता है। आपातकालीन परिस्थिति में नए कपड़े बगैर खरीदने पड़ते हैं। इस खर्चे की भरपाई ट्रैवल इंश्योरेस से संभव है। कई बीमा लट-मार से भी सुखा देते हैं। यानी विदेश में सामान चोरी हो जाए या फिर पासपोर्ट खो जाए तो उसे फिर से जारी करने का खर्च भी बीमा कंपनी उठाती है।